

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 जनवरी 2019—पौष 24, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2019

क्र. बी-8-8-2018-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2018-19 में पटवारी हल्कावार, तहसील एवं जिला स्तर की फसलों की अधिसूचना दिनांक 599, 6-11-2018 को जारी की जा चुकी है. जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है. संलग्न सूची अनुसार जिला धार, रतलाम एवं बैतूल के पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसलों के लिये पटवारी हल्का स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2018-19	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.वृत्त का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक	पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्कों में सम्मिलित ग्रामों के नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ आसिंचित	चना	राई-सरसाँ
धार	धार	धार	89	गोविन्दपुरा	गोविन्दपुरा	गेहूँ सिंचित		चना	
					गवला				
					खिलेडी				
			100	लोहारी बुजुर्ग	लाहारा बुजुर्ग	गेहूँ सिंचित		चना	
					माचकदा				
					बडोदिया				
			113	बकसाना	बकसाना	गेहूँ सिंचित		चना	
					बगोदा				
					उमरिया				
					निजामपुरा				
	115	चम्बल बरोदा	चम्बल बरोदा	गेहूँ सिंचित		चना			
			भिचोली						
			सरफराज						
	125	चन्दनखेडी	चन्दनखेडी	गेहूँ सिंचित		चना			
			सुहागपुरा						
	116	सुलावड	सुलावड	गेहूँ सिंचित		चना			
	131	बिल्लोद	बिल्लोद	गेहूँ सिंचित		चना			
	47	तिरला	बडापिपली	गेहूँ सिंचित		चना			
			सीतापाट						
	26	धरमपुरी	धरमपुरी	26	बिखरोन	गेहूँ सिंचित		चना	
गुलरझीरी									
जेतापूरा									
21	जेतापूरा	जेतापूरा	21	लोधीपुरा	गेहूँ सिंचित				
				एकलरा खुदे					
22	धरमपुरी	धरमपुरी	22	बलवारी	गेहूँ सिंचित				
				बासवी					
				खोकरिया					
रतलाम	आलोट	आलोट	26	शेरपुरखुर्द	शेरपुरखुर्द			चना	
बैतुल	चिचोली	चिचोली	9	चुरनी	चुरनी	गेहूँ सिंचित			
				कामठा र.	सुककलढाना				
	मुलताई	मुलताई	29	परमण्डल	परमण्डल	गेहूँ सिंचित			